

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के भारतीय विधि संस्थान के कामकाज की
समीक्षा संबंधी विवरण

विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली को सहायतानुदान के रूप में 300 लाख रु. जारी किये थे।

2. वर्ष 2019-20 की संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों के अवलोकन करने पर यह देखा गया है कि आईएलआई ने निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं: -

(i) निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन किया गया : -

क्र.सं.	प्रोग्राम	शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के छात्रों की संख्या
1.	पीएच.डी	04 छात्र
2.	एलएल.एम. (1 वर्ष)	36 छात्र
3.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स	265 छात्र
प्रवेश लिये गये छात्रों की कुल संख्या		305 छात्र

(ii) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/संगोष्ठी पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजन किया गया:-

(क) 1 फरवरी, 2020 को आयोजित "अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और भारतीय स्थिति में परिवर्तन की रूपरेखा" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(ख) निम्नलिखित कार्यशालाएँ आयोजित की गयी:-

क्र.सं.	कार्यशालाएँ
1.	"शोध निबंध लेखन" पर कानूनी अनुसंधान पद्धति कार्यशाला 28 जनवरी, 2020 को आयोजित की गई।
2.	"टीचिंग टेक्निक्स एंड रिसर्च फॉर यंग लॉ टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स" पर कार्यशाला 6 से 12 नवंबर, 2019 तक आयोजित की गयी।
3.	"बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता (पीडब्ल्यूआईडीडीएस) वाले व्यक्तियों की कानूनी क्षमता निर्माण / क्षमता निर्माण" पर राष्ट्रीय कार्यशाला 23 अक्टूबर, 2019 को आयोजित गयी थी।
4.	"मुस्लिम लॉ रिफॉर्म पद्धति और इस्लामिक ज्यूरिस्ट की भूमिका" की कार्यशाला 1 मई, 2019 को आयोजित की गयी।

(ग) मुद्दों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये:-

क्र. सं.	निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
1.	"मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ" पर न्यायिक अधिकारियों का कार्यक्रम 14 से 15 मार्च, 2020 तक
2.	"मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ" पर जेल अधिकारियों का कार्यक्रम 14

	से 15 मार्च, 2020 तक
3.	“पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” पर पुलिस कार्मिकों के लिए 23 से 24 नवम्बर, 2019 को आयोजित
4.	“मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के लिए 21 से 22 सितम्बर, 2019 को आयोजित
5.	“मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” पर बाल सुधार गृहों, वृद्धाश्रमों और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 अगस्त, 2019 को आयोजित
6.	भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 28 से 31 जनवरी, 2020 तक आयोजित

(घ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का संचालन:-

क्र.सं.	संगोष्ठी
1.	“मानवाधिकार और दिव्यांग जनों” के लिए 11 जनवरी, 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी
2.	“चुनौतियों और वैकल्पिक विवाद समाधान की संभावना” पर 14 से 15 जून, 2019 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी
3.	“विकलांगता अधिकार प्रतिमान की खोज” पर 28 सितंबर, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी
4.	“मीडिया, कानून और चुनाव” पर 5 अप्रैल, 2019 को आयोजित संगोष्ठी

(iii) त्रैमासिक पत्रिकाएँ, कानून की समीक्षा, पुस्तक समीक्षा, भारतीय कानून - 2018 का वार्षिक सर्वेक्षण और आईएलआई न्यूज़लैटर प्रकाशित किया गया। इस्लाम में तलाक और लैंगिक असमानता के विवादित बयानबाजी कानून’, जमानत: भारत में कानून और प्रैक्टिस तथा पुनर्विचार कानून और हिंसा’ पर पुस्तकों का प्रकाशन।

(iv) संस्थान ने आईपीआर और साइबर कानून पर ई-लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन भी किया है।

3. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई), नई दिल्ली की रिपोर्ट के साथ सहमत है।